

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12042025-262440  
SG-DL-E-12042025-262440असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 15
No. 116]	DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947	[N. C. T. D. No. 15

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि एवं भवन विभाग  
(भूमि अधिग्रहण शाखा)  
अधिसूचना

दिल्ली, 4 अप्रैल, 2025

फा.सं. 9(25)/भूमि एवं भवन/भूमि अधिग्रहण/2023:129.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 2740(ई) एवं दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस०ओ० 2004(ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव, आकलन एवं अनुज्ञा) नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा भूमि अधिग्रहण जिसे दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नए सीवेज उपचार संयंत्र, ओखला, नई दिल्ली के निर्माण हेतु गांव जसोला, नई दिल्ली के खसरा संख्या 590/51/1(02-08) एवं 592/55/2 (00-04) की भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखता है के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन करने के लिए तथा सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए दिनांक 13 जून 2017 की अधिसूचना संख्या फाइल 8/2/9/2015/भूमि एवं भवन/भूमि अधि०/2373 द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई के रूप में चिह्नित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 को निर्दिष्ट करते हैं।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन का अध्ययन इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
मनविंदर सिंह, उप-सचिव

**LAND AND BUILDING DEPARTMENT****(Land Acquisition Branch)****NOTIFICATION**

Delhi, the 4th April, 2025

**F. No. 9(25)/L&B/LA/2023/129.**—In the exercise of the powers conferred by the sub-rule (1) of rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2014, read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 2740(E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004(E) dated 21/07/2015, the Lt Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to assign Indian Institute of Public Administration (IIPA), Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi-110002 which was identified as Social Impact Assessment Unit vide notification No.F.8(2)/9/2015/L&B/LA/2373 dated 13.06.2017 to carry out Social Impact Assessment study and to prepare Social Impact Assessment report for acquisition of land which Delhi Jal Board (DJB), GNCT of Delhi intends to acquire land of Khasra No.590/51/1(02-08) & 592/55/2(00-04) of Village Jasola, New Delhi, for construction of New Sewage Treatment Plant, Okhla, New Delhi.

Indian Institute of Public Administration (IIPA), Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi-110002, (Social Impact Unit) shall carry out the social impact assessment study as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act, 2013 within a period of 06 (Six) month from the date of issue of this notification.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,

National Capital Territory of Delhi,

MANVINDER SINGH, Dy. Secy.